

#### **ICRA** Limited

January 27, 2022

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400 001, India Scrip Code: 532835 National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

**Sub.:- Advertisement copies** 

Please find enclosed copies of the extracts of the unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of ICRA Limited (the "Company") for the third quarter and nine months ended December 31, 2021 published in the following newspapers on January 27, 2022, pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2<sup>nd</sup> Floor, Tower A DLF Cyber City, Phase II Gurugram - 122002, Haryana Tel.: +91.124.4545300 CIN: L74999DL1991PLC042749 Website: www.icra.in
Email: info@icraindia.com
Helpdesk: +91.9354738909

Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001. Tel.: +91.11.23357940-41

**FINANCIAL EXPRESS** 

#### AWAITING FINAL NOD

# Covaxin, Covishield doses to be capped at ₹275 for regular use

**Both Covid-19** vaccines currently only authorised for emergency use

PAYAL BANERJEE New Delhi, January 26

THE PRICE OF Covishield and Covaxin, the Covid-19 vaccines which are expected to soon get regular market approval from the drug regulator, is likely to be capped at ₹275 per dose plus an additional service charge of ₹150, official sources said.

According to them, the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has been directed to start working towards capping the price to make the vaccines affordable.

As of now, Covaxin is priced in the country.

A Subject Expert Commit-

tee (SEC) on Covid-19 of the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) on January 19 recommended granting regular market approval to Covid vaccines Covishield and Covaxin for use in the adult population subject

to work towards capping the price of the vaccines. The price is likely to be capped at ₹275 per dose along with an additional service charge of ₹150," an official source said.

Prakash Kumar Singh, director (government and regulatory affairs) at Serum

Institue of India, had submitted an application to the Drugs Controller General of India on October 25 seeking regular market approval for its Cov-

A couple of weeks ago, V Krishna Mohan, the whole-time director at Bharat Biotech, submitted complete information on the chemistry, manufacturing and controls, along with the pre-clinical and clinical data while seeking regular market

Covaxin and Covishield

# **O9 Solutions raises** \$295 m from General Atlantic, others

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 26

SOLUTIONS ON WEDNESDAY said it has received equity investments totalling \$295 million from General Atlantic, including its climate investing venture BeyondNetZero, Generation Investment Management, and existing investor KKR, valuing the enterprise AI software platform

at \$2.7 billion.

investment led by

\$100 million.

With the latest fundraise, the This marks an enterprise Al increase from the software platform's \$1-billion valuavaluation has tion in April 2020 surged to at the time of the company's first-\$2.7 billion ever external

KKR, a statement said. In early 2020, KKR had made a minority investment of

This capital raise follows a ning capabilities. record year during which the firm reported a greater than threefold rise year-on-year in annual recurring revenue from new customers, it added.

help companies deal with these mega trends with a differentiated, proven platform," o9 co-founder and CEO Chakri Gottemukkala said.

# State-run TCIL's 30% stake in Bharti Hexacom valued at nearly ₹9,000 cr

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 26

THE GOVERNMENT HAS valued the 30% stake of state-run TCIL in Bharti Hexacom at around ₹8,900 crore, based on a formula suggested by SBI Capital Markets, an official source said.

Bharti Airtel holds a 70% stake in Bharti Hexacom, which provides telecom services in Rajasthan and Northeast. The government holds the remaining 30% in the company through Telecommunications Consultants India (TCIL).

A proposal for TCIL selling its stake and exiting the joint venture has been pending for over 15 years.

"Based on present valuation and market cap of Bharti Airtel, TCIL stake in Bharti Hexacom stands at around ₹8,900 crore.

This keeps changing based on the market cap of Bharti Airtel. "The final value that the government will get is dependent on the time of exit from the JV and market cap of Bharti Airtel,"

the source, who did not wish to be named, said. Bharti Airtel has the first

right of refusal for TCIL's stake. The valuation formula has been suggested by SBI Capital Markets (SBI Caps) and the government will decide on the time for exit after the Department of Investment and Public Asset

Management

approves the proposal.

source added. When contacted, TCIL chairman and MD Sanjiv Kumai declined to comment on the valuation but said the company had roped in SBI Caps for assess ment and the report has been submitted to the Department of

Telecom (DoT).

"If the government decides

to exit after Bharti Hexacom

takes the IPO route, then the

stake sale will take around 2

years. By that time, the valua-

tion will be different and can't

be predicted at this time," the

In 2006, Bharti Airtel had offered ₹262 crore for the 30 per cent stake, which was turned down by the then government and it had asked TCIL for revaluation.

### to certain conditions. "The NPPA has been asked

at ₹1,200 per dose while Covishield costs ₹780 in private facilities. The prices include ₹150 service charge. Both the vaccines are currently only authorised for emergency use

ishiled vaccine.

authorisation for Covaxin.

were granted Emergency Use Authorisation (EUA) on January 3 last year.

markets, the statement said. The funding will also help o9 drive continued innovation in R&D, industry knowledge models and partner ecosystem development, it added. Companies across industry verticals that include retail, consumer and industrial prod-

> life sciences, automotive, telecom, and oil and gas, leverage o9's platform for transforming their supply chain, commercial and integrated business plan-

will help o9 build on its

momentum and accelerate

growth for its AI-powered inte-

grated business planning plat-

form it calls the 'Digital Brain'

across industry verticals and

varied

No.

ucts manufactur-

ing, high-tech and

semiconductor,

"o9 is poised perfectly to

### ■ INTERVIEW: SAUVICK MAZUMDAR, CEO, Vedanta Iron & Steel

# 'We expect our steel capacity expansion to be at least 10-12 mtpa in next 6-7 years'

*Vedanta acquired the inoperative* Bellary Steel in Karnataka through competitive bidding in 2011 and Electrosteel Steels (ESL) via the insolvency route in 2018. The company's iron and steel vertical includes steel operations, iron ore mines in Goa, Karnataka and Odisha, apart from a ferroalloys producing unit; a nickel, cobalt and cement unit; and a pig iron, metallurgical coke & port business. Sauvick Mazumdar, CEO, Vedanta Iron & Steel, shares with Surya Sarathi Ray the plans ahead. Edited excerpts:

#### What is the plan for expansion in ESL?

Currently, we have around 1.5 million tonne per annum capacity at ESL and are working to take it to 3 mtpa with around ₹4,000-crore investment. The expansion will be through the brownfield route. We are getting the requisite clearances and I believe in the next 9-10 months, this entire capacity addition will take place. The blueprint is also ready for taking the capacity further to 5 mtpa. It'll need another ₹8,000-9,000 crore.

#### What kind of product basket do you have now in the steel business?

Our product basket includes TMT bar, wire rod and ductile iron pipe in steel segment. We are in the process of doubling the entire product basket. However, as we go forward, we will also get into the flat and special alloys segment. All the thinking is going on.

#### And, in Bellary?

We have got over 1,000 acres of land in Bellary. We are very actively considering that expansion. We will produce green steel there. We are toying with various ideas as to whether we will go for a tie-up. But it's too early to say anything. At this point, I won't be able to say much on the proposed capacity there. But we have been talking about having around 3-4 mtpa over there.

What is stopping you from executing the plan at Bellary? When is the ground work likely to start? Nothing is stopping us...we are

on the drawing board. I don't think it'll be good for me to comment on a timeline for that.

ups in both Bellary and ESL? We are not against any sort of idea, but as of now there aren't any.

Will you be looking for tie-

The government has projected 300 mtpa capacity by 2030-31. What kind of capacity will Vedanta be looking at by then?

Right now, we are producing around 2.5 mtpa. Apart from 1.5 mtpa in ESL, we are producing around 1 mtpa of very highquality pig iron in Goa. Very soon, we'll also produce ductile iron pipe from Goa. By 2030, we'll be coming up with Bellary and further expansion with ESL. So, in the next 6-7 years, we expect our expansion to be a minimum of 10-12 mtpa.

How do you feel about demand in the steel sector? In the current context, things are not picking up as one would like them. Per capita steel consumption in India is currently around 75 kg against the world average of around 228 kg. In China, it is around 691 kg. And, if we look at stainless steel, India's per capita consumption is 2.5 kg against the world average of around 6-7 kg and China's 16-17 kg. For a country of India's size to develop, whether it is steel or

#### Are you planning to enter the stainless steel sector?

stainless steel, this has to go up.

At Vedanta, we are producing everything required to make steel or stainless steel. We are producing iron ore, steel, metallurgical coke, ferro-chrome and soon we are also going to produce nickel. For stainless steel two ingredients are very important, ferro-chrome and



nickel. But I would not be able to comment on entering into stainless steel sector now. Let us see how things unfold. I believe if India has to grow, more and more steel and stainless steel India has to produce.

This significant investment

Apart from catering to the domestic market, will exports be an option?

Yes, that is always there. But I see it differently. Even in India, with a little bit of accelerated growth, there is and there will be enough demand going forward.

What is the prospect of reopening of Goa mines? Will it happen or is it dead? I don't consider it dead but it all

depends on what the govern-

ment feels. The state government has written several times to the Centre for amendment in the Act after which the mines can be reopened. It's a huge legal battle. There are cases running in the Supreme Court since 1987. What needs to be done is a small amendment in an Act. That would be the best and easiest way. I'm sure the Centre is also thinking on similar lines, as 25% of Goa's population is directly or indirectly dependent on mining. We are all hopeful. An industry that has existed for over 80 years cannot just die.

### **ALLSEC TECHNOLOGIES LIMITED** Regd. Office: 46-C Velachery Main Road, Velachery, Chennai - 600 042.

Corp. Office: 46-B Velachery Main Road, Velachery, Chennai - 600 042. CIN: L72300TN1998PLC041033, Email: investorcontact@allsectech.com Extracts of Unaudited Consolidated Financial Results for the

Quarter and Nine months ended 31 December 2021 (Rupees in Lakh except Earnings per share data)

		Co	Consolidated Results		
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31-Dec-2021	Nine months Ended 31-Dec-2021	Quarter Ended 31-Dec-2020	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total income from operations	8,322	23,183	7,169	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,648	4,296	1,248	
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,648	4,296	1,248	
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,316	1,814	887	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,255	1,695	914	
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1,524	1,524	1,524	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet*	24,988	24,988	21,283	
8	Earnings Per Share* (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	8.63	11.90	5.82	
	(b) Diluted	8.63	11.90	5.82	

# Balance for the quarter and nine months ended 31 December 2021 represents the balance as per audited Balance Sheet for the year ended 31 March 2021 and balance for the quarter ended 31 December 2020 represents balance as per audited Balance Sheet for the year ended 31 March 2020, as required by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

\* EPS is not annualised for the guarter and nine months ended 31 December 2021 and guarter ended 31 December 2020.

- These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The unaudited consolidated and standalone financial results of the Company for the guarter and nine months ended 31 December 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 25 January 2022. The statutory auditors have issued unmodified review report.
- 2 The consolidated results for the guarter and nine months ended 31 December 2021 include the results of the Company's wholly owned subsidiaries Allsectech Inc., USA and Allsectech Manila Inc., Philippines
- Allsec Technologies Limited (Group) operates in two segments viz Digital Business Services (DBS) and Human

Standalone Financial Results	Quarter Ended 31-Dec-2021	Nine months Ended 31-Dec-2021	Quarter Ended 31-Dec-2020
Particulars	Unaudited	Unaudited	Unaudited
(a) Income from operations (net)	5,785	16,156	4,927
(b) Profit before tax	744	11,050	595
(c) Profit after tax	507	8,839	418
(d) Other comprehensive income for the period, net of tax	(46)	(137)	(27)
			A

- The above is an extract of the detailed format of the quarter and nine months ended 31 December 2021 financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full details of standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 are available on the Company's website under investors section (www.allsectech.com) or at the website of BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com)
- The figures for the corresponding previous periods have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to conform to the figures presented in the current period.

Place : Bengaluru Ajit Isaac Date: 25 January 2022 Chairman

For and on behalf of the Board of Directors

8.702

# **BRIGHTCOM GROUP LIMITED**

(DIPAM)

CIN:L64203TG1999PLC030996, Tel: +91 40 6744 9910, Fax: +91 22 6645 9677, www.brightcomgroup.com, email:ir@brightcomgroup.cor

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December 2021 31-Dec-2021 30-Sep-2021 31-Dec-2020 31-Dec-2021 31-Dec-2020 31-Mar-2021 Unaudited | **Audited** Unaudited Unaudited

2	Tiont before tax	26.26	19.86		158.05	69.45	
2	Profit Before Tax	41.92	36.17	60.39	325.59	190.74	1,218.2
1	Turnover	9,391.70	8,990.96	3	27,281.12		
	following items are given on Stand-alone basis.	31-Dec-2021 Unaudited	30-Sep-2021 Unaudited	31-Dec-2020 Unaudited	Unaudited	Unaudited	31-Mar-202 Audited
urs	uant to Regulation 47(b) of SEBI LODR Regulations, 2015		Quarter ended	Si		ths ended	Year ende
	2) Diluted	3.55	2.03	2.73	6.58	6.76	9.51
	1) Basic	3.57	2.04	2.73	6.62	6.76	9.51
8	Earning per share (for contiuned and discontiuned operations) (Face Value of Rs.2/-each)(not annualised)	-	-	-	-	-	-
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	- 1	-	-	315,807.
6	Paid up Equity Share Capital	20,832.66	20,832.66	10,153.03	20,832.66	10,153.03	10,153.0
S	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	36,896.52	20,833.31	13,818.13	72,157.44	27,988.49	40,428.5
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, after Exceptional and / or Extraodinary items	37,144.59	21,214.66	13,860.31	68,914.16	34,298.33	48,300.8
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and / or Extraodinary items)	50,571.12	28,961.02	18,843.89	94,159.37	46,892.32	66,000.5
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraodinary items)	50,571.12	28,961.02	18,843.89	94,159.37	46,892.32	66,000.5

(Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited financials results are available on the Stock Exchange websites (URL of the filings: www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the company's website (www.brightcomgroup.com) 1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 25th January'2022 2. The above interim financial results have been prepared from the Interim financial statements, which are prepared in accordance with Ind AS notified

Notes: The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI

under the companies(Indian accounting standards) rules,2015

3. The Company operates in two segments i.e. Digital Marketing and Software Development.

4. The figures for the previous period/year have been regrouped/reclassified, wherever necessary.

Place: Hyderabad

For BRIGHTCOM GROUP LIMITED M. SURESH KUMAR REDDY **Chairman and Managing Director** DIN: 00140515



#### Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749

Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

S. No.	Particulars	ended December 31, 2021 (Unaudited)	ended December 31, 2021 (Unaudited)	ended December 31, 2020 (Unaudited)
1	Total income from operations	4,873.64	14,237.49	4,694.36
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,168.60	6,690.89	2,042.27
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,168.60	6,690.89	2,042.27
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,654.22	5,454.30	1,541.72
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,647.03	5,476.96	1,519.90
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		55-53-53	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
	Basic :	17.20	56.70	16.02
	Diluted :	17.20	56.70	16.02

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

(₹ in lakh) Nine months Quarter Quarter ended ended ended December December December **Particulars** 31, 2021 31, 2021 31, 2020 (Unaudited) (Unaudited) Unaudited) Total income from operations 8,655.36 24,909.59 7,734.75 Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) 4,130.80 10,554.28 3,257.05 Net profit / (loss) for the period before tax 4,130.80 10,554.28 3,257.05 (after exceptional and/or extraordinary items) Net profit / (loss) for the period after tax 3,108.94 7,979.89 2,444.97 (after exceptional and/or extraordinary items) Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) 3,099.86 7,940.55 2,414.66 and Other comprehensive income (after tax)] 6 Equity share capital 965.12 965.12 965.12 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 8 Earnings per share (of ₹ 10/- each) -32.10 82.01 25.15

NOTES: During the quarter ended December 31, 2021, the Company was dealing with following matters which arose in previous periods:

(a) The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") had enhanced the penalty amount from ₹ 25. lakhs to ₹ 1 crore during the quarter ended September 30, 2020 in respect of an adjudication proceeding initiated by it in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customer and the customer's subsidiaries. The Company had deposited the enhanced penalty amount under protest and had filed an appeal with the Securities Appellate Tribunal contesting the said order. The said appeal is under review. On this matter, the Company also co-operated with other government

32.10

82.01

25.15

agencies in relation to gueries received from them. (b) The Board of Directors ("Board") had previously appointed external experts to examine and report on anonymous representations making certain allegations against two former officials which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). The key findings arising from the said examination along with the remedial measures were submitted to SEBI in July 2020. The Company has implemented the remedial measures, including termination of services of aforesaid officials. Basis the foregoing and the legal counsel opinion obtained, the Company does not foresee any

significant adverse implications on the Company. (c) The Company had received an anonymous complaint during the guarter ended September 30. 2021, making certain allegations around conflict of interest against two senior officials of the Company, who are no longer in employment. The Company has appointed external expert to examine the allegations, which is in progress. The Board has not identified any matter till date which may require an adjustment to these financial results.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and nine months Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange. For more details on standalone and consolidated financial results, visit Investors relations section of our website at www.icra.in and financial results under Corporates section of www.bseindia.com and

> By Order of the Board of Directors Ramnath Krishnan Managing Director & Group CEO DIN-09371341

financialexp.epa

The Bidders on regular basis are required to visit the NMDC's website / CPP Portal/MSTC website for corrigendum, if any, at a future date.

#### NMDC Limited

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028

### CIN: L13100TG1958GOI001674

CONTRACTS DEPARTMENT Dated: 27/01/2022 Tender Enquiry No: H0(Contracts)/NISP/0CMSE(T0C)/103C NMDC Limited. A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites online bids for "Setting up of Online Continuous Monitoring System for Effluents (Package No. 103C)" of 3.0 MTPA Integrated Steel Plant at Nagarnar near Jagdalpur, Chhattisgarh State on divisible turnkey basis including 03 Years Comprehensive Annual

Maintenance Services from experienced, reputed and competent domestic bidders. The detailed NIT and Bid documents can be viewed and /or downloaded from NMDC website http://www.nmdc.co.in, Central Public Procurement portal http://www.eprocure.gov.in/epublish/ app and MSTC portal http://www.mstcecommerce.co.in from 27/01/2022 to 17/02/2022. For Accessing the Bid document from NMDC website, the bidder has to register as "New User" in

Bid section at NMDC's website link http://www.nmdc.co.in/nmdctender/default.aspx For accessing the Bid documents from Central Procurement Portal www.eprocure.gov.in, the Tenderer has to click on "Latest active Tenders". For accessing the bid document from MSTC, bidders to visit website link -http://www.

mstcecommerce.co.in/eprochome/nmdc/buyer\_login.jsp and search Tender No. NMDC/HO/71/

21-22/ET/342. Bidders are requested to register as 'New Vendor' for downloading the tender

document. For further help refer to 'vendor guide' given in MSTC website. The bidders are requested to submit their bids through online mode and details of submission of bid through online are given in NIT.

For further clarification, CGM(Contracts), NMDC Limited Hyderabad can be contacted through Fax No. +91-040-23534746, Tel No. +91-040-23532800, email: steelcontracts@nmdc.co.in C G M (Contracts)

(e) Total comprehensive income for the period

Place : Mumbai

www.nseindia.com.

Dated: January 25, 2022


Diluted

New Delhi

न्यूनतम- 4.8

मौसम

जनसत्ता, नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022 3



राष्ट्रीय पर्व

गणतंत्र दिवस परेड समारोह समापन के बाद हवा में उड़ते प्रतीक गुब्बारे।

कोरोना के 7,498 नए मामले, 29 मरीजों की मौत

# उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 50 फीसद की कमी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 जनवरी।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन कोरोना संक्रमण के 7,498 नए मामले आए और 29 मरीजों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान संक्रमण की दर 10.59 फीसद रही।

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 13 जनवरी को 94,160 पहुंचने के बाद महज 12 दिनों के भीतर घटकर आधी रह गई है। गौरतलब है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान उपचाराधीन मरीजों की संख्या आधी होने में 21 दिन लग गए थे। जनवरी में राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कोविड से 603 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबिक अधिकारियों का कहना है कि मौत के

## गौतमबुद्ध नगर में 727 नए मरीज मिले

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, २६ जनवरी।

गौतमबुद्ध नगर जिले में बुधवार को कोरोना के 727 नए मरीज मिले हैं। इससे जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 92,547 हो गई है। इनमें 5,201 सक्रिय मरीज शामिल है। वहीं 1,323 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 86,862 हो गई है। बुधवार को 5,454 संक्रमितों की जांच की गई। इस दौरान 699 लोग आरटी-पीसीआर और 28 लोग एंटीजन जांच में संक्रमित पाए गए। अब तक जिले में कुल 18 लाख 87 हजार 743 जांच की जा चुकी हैं। मंगलवार को संक्रमण दर 13 फीसद रही। जबकि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98 फीसद से अधिक रही। जिले में सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में 150 संक्रमितों का इलाज चल रहा है और 5050 मरीज गृह पृथकवास में हैं।

ज्यादातर मामलों में कोरोना संक्रमण प्राथमिक 13 जनवरी को बढ़कर 94,160 हो गई थी। जो कारण नहीं है। गौरतलब है कि कोविड की कि मंगलवार (25 जनवरी) को कम होकर तीसरी लहर में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 42,010 रह गई।

# उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 जनवरी।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस दौरान बैजल ने शहीदों को श्रद्धांजिल भी दी और कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर लिखा, 'भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली तथा देश के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के 75वें वर्ष में मनाया जा रहा यह गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए नई आशा लेकर आया है।' उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि इस अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता

सेनानियों और शहीदों को नमन करता हूं और विशेष रूप से सभी कोरोना योद्धाओं द्वारा महामारी में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हुं। उन्होंने कहा कि आइए, हम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने आप को संविधान के मौलिक सिद्धांतों के प्रति पुनः समर्पित करें। जय हिंद।

वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उनके आवास पर राष्ट्रध्वज फहराने की जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा रचित यह संविधान हर भारतीय की उम्मीदों और आकांक्षाओं को समेटे है।

### दवा लेने घर आई बच्ची से पड़ोसी ने किया बलात्कार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 जनवरी।

पांडव नगर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपनी बीमार मां के लिए पड़ोसी के घर दवा लेने के लिए गई थीं। लौटते समय आरोपी ने बच्ची को खेतों की तरफ खींच लिया और बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया।

जिस समय घटना हुई बच्ची के पिता दिल्ली से बाहर गए हुए थे, जब पिता घर लौटे तो पीड़िता की मां ने इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पांडव नगर थाना पुलिस से इस बाबत शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस ने पोक्सो, बलात्कार समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

# लाल साफे में राजपथ पर दिखी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 जनवरी।

गणतंत्र दिवस पर बुधवार को इंस्पेक्टर (निरीक्षक) राजेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस के चार उप-निरीक्षकों, 15 सहायक उप-निरीक्षकों, 20 हेड भी जीता था। 73वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और 46 कांस्टेबल के बैंड का नेतृत्व दल का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त एवं भारतीय

आदर्श वाक्य है, 'शांति, सेवा और न्याय'। परेड के दौरान मार्च कर रही दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने 15 बार गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जीता है।

इसने 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किया। बैंड ने 'दिल्ली पुलिस गीत' बजाया। इसका पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक भगत ने किया।

#### पंजाब नैशनल बेंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कथित सूचना(ओं) की तिथि/कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सुचना जारी की थी

कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों) को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित वर्णित सम्पत्ति/यों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) र्क

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के

प्रतिभृत आस्तियों की अनुसूची

क्र	शाखा का	खाते का	बंधक सम्पत्ति का	मांग सूचना		मांग सूचना की तिथि
सं.	नाम	नाम	विवरण	की तिथि	चिपकाकर कब्जे की	तक बकाया राशि
					तिथि	
1.	मानस	मैसर्स काजल	आवीसय सम्पत्ति एम.सी. सं. 18/256, श्री बलबीर सिंह के नाम पर,	30.06.2021	25.01.2022	
	सरोवर	एंटरप्राइजेज	सराय पक्क परगना एवं तहसील–कोइल, जिला अलीगढ़ का समस्त			(रुपये आठ लाख तिरेपन
	कॉलोनी,	प्रोपराइटर श्री बलबीर	भाग, क्षेत्रफल 34.83 वर्ग मीटर, बही सं. 1, जिल्द सं. 6056, क्रम			हजार तीन सौ छः मात्र)
	अलीगढ़	सिंह के माध्यम से	सं. 1459, पृष्ठ 329-366, दिनांक 06.02.2015 को उप रजिस्ट्रार			+
			कार्यालय कोइल, अलीगढ़ में पंजीकृत।			ब्याज
			सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : श्री बलवीर सिंह का मकान,			+
			पश्चिम : वर्मा जी का मकान, उत्तर : रास्ता 15 फीट चौड़ा,			विधिक व्यय
			दक्षिणः इन्द्रेश का मकान			
ति	थ : 25.01.2	.022 स्थान : अलीगव			अधिकृत प्राप्ति	धकारी, पंजाब नैशनल बैंक

# सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

प्राधिकत अधिकारी,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

#### [(विशिष्ट-IV)देखें नियम 8(1)] शाखा कार्यालयः बीपी-56, शालीमार बाग, दिल्ली-110088

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्ती परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को माँग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यसवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

अचल सम्पत्तियों का विवरण

	जावल सन्यासचा का विवरन							
<b>在</b>		गिरवी रखी गई/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि			
1	. कर्जवारः श्रीमती सतनाम कौर पत्नी श्री हरविन्दर सिंह एवं सह-कर्जदारः श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री राजिन्दर सिंह	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो यहाँ स्थित हैं: भूतल का पिछला भाग बिना छत / टैरेस अधिकार के, परिमाप 50 वर्ग गज (22' x 20.5" लगभग) (निकटवर्ती सम्पत्ति संख्या एफ-252) मानसरोवर गार्डेन, नई दिल्ली के नाम में ज्ञात आवासीय कॉलोनी में स्थित ब्लॅक-एफए में निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति संख्या एफ-251 में से। जो घरा है:- उत्तरः सम्पत्ति संख्या एफए-05 दक्षिणः सम्पत्ति का शेष भाग पूर्वः सड़क पश्चिमः सड़क			रू. 18,81,531/- (अठारह लाख इक्यासी हजार पाँच सौ इकत्तीस रूपये मात्र) और उस पर ब्याज।			
2	कर्जदारः श्री राम कृपाल यादव पुत्र श्री महेन्दर यादव सह-कर्जदारः श्रीमती नेहा यादव पत्नी श्री राम कृपाल यादव गारंटरः श्री नवीन सेवानी पुत्र स्व० श्री पी.आर. सेवानी	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो यहाँ स्थित हैं: श्री राम कृपाल यादव पुत्र श्री महेन्दर यादव के नाम पर साम्यिक बंधक सम्पत्ति, विवरण इस प्रकार है: फ्रीहोल्ड डीडीए निर्मित जनता फ्लैट नं. 111-ए, ब्लॉक एवं पॉकेट बीके-1, भूतल, क्षेत्रफल परिमाप 25 वर्ग मीटर, शालीमार बाग, दिल्ली में स्थित है। जो घिरा है:- उत्तरः सम्पत्ति संख्या 112-ए दक्षिणः सम्पत्ति संख्या 110-ए पूर्वः अन्य की सम्पत्ति	11.11.2021	24.01.2022	रू. 16,41,207/- (सोलह लाख इकतालिस इकतालिस हजार दो सौ सात रूपये मात्र) और उस पर ब्याज।			

कर्जदारों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (८) के प्रावंधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

### लोकनिर्माण विभाग करेगा 'यू-टर्न' का निर्माण

# बाहरी मुद्रिका मार्ग पर मिलेगी जाम से आजादी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 जनवरी।

मध्य और उत्तरी दिल्ली के बीच बाहरी मुद्रिका मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही मजनूं का टीला और चांदगी राम अखाड़ा ट्रैफिक जंक्शन के पास जाम से छुटकारा मिल सकेगा, क्योंकि लोक निर्माण विभाग (पीडब्लुडी) ने इस दो किलोमीटर की दूरी को भीडभाड़ से मुक्त करने की योजना तैयार की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पीडब्लूडी के अधिकारियों के अनुसार विभाग इस मार्ग पर एक 'यू-टर्न' का निर्माण होगा और सिग्नेचर पुल के पास मजनू का टीला और चांदगी राम अखाड़ा तिराहे के बीच सड़क चौड़ा किया जाएगा। चांदगी राम अखाड़े। तिराहे को मेटकाफ हाउस क्रासिंग भी कहा जाता है।

अभी इस मार्ग पर कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाकर वापस आना पड़ता है। इस वजह एक तरफ आइएसबीटी मार्ग और दूसरी तरफ अखाड़े की लालबत्ती पर वाहनों का बोझ बढ़ जाता था।

बोझ को खत्म किया जा सकेगा तक पहुंचते हैं। और प्रमुख लाइट से पहले ही सुविधा मिल सकेगी।

नई व्यवस्था से इस अतिरिक्त

मुद्रिका मार्ग पर इस सड़क खंड के

इस प्रक्रिया में करीब एक माह का समय लगने की संभावना है। *इस मार्ग* पर कोई रास्ता नहीं होने से वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाकर वापस आना पड़ता है।

जाएगा ताकि पैदल यात्री और साइकिल सवार भारी यातायात में न फंस जाएं।

विभाग के मृताबिक इस काम के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसपर काम शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब एक माह का समय लगने की संभावना है। और निर्माण कार्य शुरू होने के चार महीने में पूरा किया जाना है। ज्ञात हो कि पहले यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए मेटकाफ हाउस क्रासिंग पर एक फ्लाईओवर बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और इस मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक के बाद एक यू-टर्न का निर्माण किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक बाहरी मुद्रिका मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए सभी प्रमुख चार चौराहों पर फ्लाइओवर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वजह से बाहरी दिल्ली से यातायात तेजी से मध्य दिल्ली

इससे मार्ग पर जाम की परेशानी वाहन चालकों को यूटर्न की बढ़ गई है। अधिकारी ने कहा कि सभी निर्माण गतिविधियों को अधिकारियों ने कहा कि बाहरी पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करते हुए किया जाएगा, ताकि साथ फुटपाथ भी ठीक किया यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो।

### दक्षिणी निगम ने सभी जोन में चलाया सौंदयीकरण व स्वच्छता कार्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 26 जनवरी।

और 'आजादी का अमृत' गया है। कार्यालय की मुख्य दीवार महोत्सव के उपलक्ष्य में दक्षिणी पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का विशाल व निगम अपने सभी जोन में व्यापक स्तर पर विशेष सौंदर्यीकरण और स्वच्छता कार्यक्रम चला रहा है। निगम की ओर से बुधवार को जानकारी दी गई कि चारों जोन में निगम भवनों, पार्कों, विद्यालयों यह ट्री आफ यूनिटी अनुपयोगी और मुख्य चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ताकि दिल्ली को सुंदर और साफ

बनाया जा सके।

इसी क्रम में दक्षिणी जोन के छह मंजिला संपत्ति कर कार्यालय भारत के 75 साल पूरे होने का भी भव्य सौंदर्यीकरण किया आकर्षक चित्र बनाया गया है।

इसके अलावा निगम के नवनिर्मित व महत्वाकांक्षी भारत दर्शन पार्क में ट्री आफ यूनिटी की भव्य कलाकृति स्थापित की गई। सामान जैसे की बिजली के खंभे, टायरों और बच्चों के पुराने खिलौनों से बनाया गया है।



Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 Nine months

S. No.	Particulars	ended December 31, 2021 (Unaudited)	ended December 31, 2021 (Unaudited)	ended December 31, 2020 (Unaudited)
1	Total income from operations	4,873.64	14,237.49	4,694.36
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,168.60	6,690.89	2,042.27
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,168.60	6,690.89	2,042.27
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,654.22	5,454.30	1,541.72
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,647.03	5,476.96	1,519.90
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)	NO-BANK TO	2.70.000	
	Basic :	17.20	56.70	16.02
	Diluted :	17.20	56.70	16.02

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

S. No.	Particulars	Quarter ended ended December 31, 2021 (Unaudited)  Quarter Nine months ended 2021 2021 2021 2021 2021		Quarter ended December 31, 2020 (Unaudited)	
1	Total income from operations	8,655.36	24,909.59	7,734.75	
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	4,130.80	10,554.28	3,257.05	
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	4,130.80	10,554.28	3,257.05	
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,108.94	7,979.89	2,444.97	
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	3,099.86	7,940.55	2,414.66	
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) -				
	Basic :	32.10	82.01	25.15	
	Diluted :	32.10	82.01	25.15	

1 During the quarter ended December 31, 2021, the Company was dealing with following matters which arose in previous periods:

Place : Mumbai

Dated: January 25, 2022

(a) The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") had enhanced the penalty amount from ₹ 25 lakhs to ₹ 1 crore during the quarter ended September 30, 2020 in respect of an adjudication proceeding initiated by it in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customer and the customer's subsidiaries. The Company had deposited the enhanced penalty amount under protest and had filed an appeal with the Securities Appellate Tribunal contesting the said order. The said appeal is under review. On this matter, the Company also co-operated with other government agencies in relation to queries received from them.

(b) The Board of Directors ("Board") had previously appointed external experts to examine and report on anonymous representations making certain allegations against two former officials which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). The key findings arising from the said examination along with the remedial measures were submitted to SEBI in July 2020. The Company has implemented the remedial measures, including termination of services of aforesaid officials. Basis the foregoing and the legal counsel opinion obtained, the Company does not foresee any

significant adverse implications on the Company. (c) The Company had received an anonymous complaint during the guarter ended September 30, 2021, making certain allegations around conflict of interest against two senior officials of the Company, who are no longer in employment. The Company has appointed external expert to examine the allegations, which is in progress. The Board has not identified any matter till date which may require an adjustment to these financial results.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and nine months Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange. For more details on standalone and consolidated financial results, visit Investors relations section of our website at www.icra.in and financial results under Corporates section of www.bseindia.com and

By Order of the Board of Directors Ramnath Krishnan Managing Director & Group CEO DIN-09371341

स्थानः नई दिल्ली

दिनाक: 24.01.2022

www.readwhere.com